



# राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

## हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2019/29 मार्गशीर्ष, 1941

हिमाचल प्रदेश सरकार

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 4 नवम्बर, 2019

संख्या: एफ0एफ0ई0-बी0-एफ0(14)-166/2019.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित के अनुसार इस अधिसूचना से

संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि या बंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें अभिलिखित कर लिया गया है;

और उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि या बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि या बंजर भूमि को लागू होंगे और जो इसके पश्चात् पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन "संरक्षित वन" कहलाएगी।

### अनुसूची

क्रम संख्या	नस्ति संख्या	वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है	मुहाल/उप-मुहाल का नाम	खसरा नम्बर	हैक्टेयर में क्षेत्रफल	मुख्य सीमाएं मुहाल/उप मुहाल	वन परिक्षेत्र	वन मण्डल	जिला
1.	58/2014	जड़ेच	जड़ेच	12, 80, 81, 201/1 किता. . 4	16-66-49	उत्तर : जड़ेच दक्षिण : कवालग पूर्व : जड़ेच पश्चिम : ढमेची, जड़ेच	मशोबरा	शिमला	शिमला

आदेश द्वारा,  
राम सुभग सिंह,  
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F(14)-166/2019, dated 4th November, 2019 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

## FORESTS DEPARTMENT

### NOTIFICATION

Shimla-2, the 4th November, 2019

**No. FFE-B-F(14)-166/2019.**—WHEREAS, the nature and extent of the rights of the Government and of the Private Persons in or over the forest land or waste land specified in the SCHEDULE appended to this Notification have been enquired into and recorded, as required under sub-section (3) of Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

AND WHEREAS, the forest land or waste land shown in the said SCHEDULE is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the forest produce therein;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 29 of the Act *ibid*, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the said Act shall apply to the said forest land or waste land and shall hereafter be called as "protected forests" under the provisions of sub-section (2) of Section 29 of the Act *ibid*.

**SCHEDULE**

Sl. No.	File No.	Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests	Name of Muhal / Up-Muhal	Khasra number (s)	Area in hectare (s)	Cardinal Boundaries Muhal/ Up-Muhal	Forest Range	Forest Division	District
1.	58/2014	Jadech	Jadech	12, 80, 81, 201/1  Kitta . . 4	16-66-49	North : Jadech South : Kawalag East : Jadech, West : Dhamechi Jadech	Mashobra	Shimla	Shimla

By order,  
RAM SUBHAG SINGH,  
Additional Chief Secretary (Forests).

**वन विभाग****अधिसूचना**

शिमला-2, 4 नवम्बर, 2019

**संख्या: एफ0एफ0ई0-बी0-एफ0(14)-167/2019.**—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अनुसार इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि या बंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें अभिलिखित कर लिया गया है;

और उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि या बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि या बंजर भूमि को लागू होंगे और जो इसके पश्चात् पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन "संरक्षित वन" कहलाएगी।

**अनुसूची**

क्रम संख्या	नस्ति संख्या	वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है	मुहाल/उप-मुहाल का नाम	खसरा नम्बर	हैक्टेयर में क्षेत्रफल	मुख्य सीमाएं मुहाल/उप-मुहाल	वन परिक्षेत्र	वन मण्डल	जिला
1.	59/2014	घरेच-प्रथम	घरेच	3, 4, 5, 33, 38, 108  कित्ता. . 6	29-49-46	उत्तर : कन्डा, घरेच दक्षिण : कुणी, शवाह पूर्व : घरेच पश्चिम : कण्डा	मशोबरा	शिमला	शिमला

आदेश द्वारा,  
राम सुभग सिंह,  
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F (14)-167/2019, dated 4th November, 2019 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

## FORESTS DEPARTMENT

### NOTIFICATION

Shimla-2, the 4th November, 2019

**No. FFE-B-F(14)-167/2019.**—WHEREAS, the nature and extent of the rights of the Government and of the Private Persons in or over the forest land or waste land specified in the SCHEDULE appended to this Notification have been enquired into and recorded, as required under sub-section (3) of Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

AND WHEREAS, the forest land or waste land shown in the said SCHEDULE is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the forest produce therein;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 29 of the Act *ibid*, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the said Act shall apply to the said forest land or waste land and shall hereafter be called as “protected forests” under the provisions of sub-section (2) of Section 29 of the Act *ibid*.

### SCHEDULE

Sl. No.	File No.	Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests	Name of Muhal / Up-Muhal	Khasra number (s)	Area in hectare (s)	Cardinal Boundaries Muhal/ Up Muhal	Forest Range	Forest Division	District
1.	59/2014	Gharech-I	Gharech	3, 4, 5, 33, 38, 108 <b>Kitta. . 6</b>	29-49-46	North : Kanda, Gharech South : Kuni, Shawah East : Gharech, West : Kanda	Mashobra	Shimla	Shimla

By order,  
RAM SUBHAG SINGH,  
Additional Chief Secretary (Forests).

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 4 नवम्बर, 2019

**संख्या: एफ0एफ0ई0-बी0-एफ0(14)-168/2019.**—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अनुसार इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि या बंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें अभिलिखित कर लिया गया है;

और उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि या बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि या बंजर भूमि को लागू होंगे और जो इसके पश्चात् पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन "संरक्षित वन" कहलाएगी।

### अनुसूची

क्रम संख्या	नस्ति संख्या	वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है	मुहाल/उप-मुहाल का नाम	खसरा नम्बर	हैक्टेयर में क्षेत्रफल	मुख्य सीमाएं मुहाल/उप-मुहाल	वन परिक्षेत्र	वन मण्डल	जिला
1.	60/2014	मझार-द्वितीय	मझार बड़ोग	400 व 404 426/1 किता. . 3	14-31-06	उत्तर : मझार दक्षिण : बड़ोग पूर्व : टिक्कर पश्चिम : मझार	मशोबरा	शिमला	शिमला

आदेश द्वारा,  
राम सुभग सिंह,  
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F(14)-168/2019, dated 4th November, 2019 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

## FORESTS DEPARTMENT

### NOTIFICATION

*Shimla-2, the 4th November, 2019*

**No. FFE-B-F(14)-168/2019.**—WHEREAS, the nature and extent of the rights of the Government and of the Private Persons in or over the forest land or waste land specified in the SCHEDULE appended to this Notification have been enquired into and recorded, as required under sub-section (3) of Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

AND WHEREAS, the forest land or waste land shown in the said SCHEDULE is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the forest produce therein;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 29 of the Act *ibid*, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the said Act shall apply to the said forest land or waste land and shall hereafter be called as "protected forests" under the provisions of sub-section (2) of Section 29 of the Act *ibid*.

**SCHEDULE**

Sl. No.	File No.	Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests	Name of Muhal/ Up-Muhal	Khasra number (s)	Area in hectare (s)	Cardinal Boundaries Muhal/ Up-Muhal	Forest Range	Forest Division	District
1.	60/2014	Majhar-II	Majhar Barog	400, 404 426/1 Kitta. . 3	14-31-06	North : Majhar South : Barog East : Tikkar, West : Majhar	Mashobra	Shimla	Shimla

By order,  
RAM SUBHAG SINGH,  
Additional Chief Secretary (Forests).

**वन विभाग****अधिसूचना**

शिमला-2, 4 नवम्बर, 2019

**संख्या:एफ0एफ0ई0-बी0-एफ0(14)-169/2019.**—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित के अनुसार इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि या बंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें अभिलिखित कर लिया गया है;

और उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि या बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि या बंजर भूमि को लागू होंगे और जो इसके पश्चात् पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन “संरक्षित वन” कहलाएगी।

**अनुसूची**

क्रम संख्या	नस्ति संख्या	वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है	मुहाल/उप-मुहाल का नाम	खसरा नम्बर	हेक्टेयर में क्षेत्रफल	मुख्य सीमाएं मुहाल/उप-मुहाल	वन परिक्षेत्र	वन मण्डल	जिला
1.	61/2014	मझार-प्रथम	मझार नेरी	1, 3, 6, 157, 277, 278, 279, 344 कित्ता. . 8	19-21-93	उत्तर : कोग दक्षिण : सैव पूर्व : बड़ोग पश्चिम : नेरी	मशोबरा	शिमला	शिमला

आदेश द्वारा,  
राम सुभग सिंह,  
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F(14)-169/2019, dated 4th November, 2019 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

## FORESTS DEPARTMENT

### NOTIFICATION

Shimla-2, the 4th November, 2019

**No. FFE-B-F(14)-169/2019.**—WHEREAS, the nature and extent of the rights of the Government and of the Private Persons in or over the forest land or waste land specified in the SCHEDULE appended to this Notification have been enquired into and recorded, as required under sub-section (3) of Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

AND WHEREAS, the forest land or waste land shown in the said SCHEDULE is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the forest produce therein;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 29 of the Act *ibid*, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the said Act shall apply to the said forest land or waste land and shall hereafter be called as “protected forests” under the provisions of sub-section (2) of Section 29 of the Act *ibid*.

### SCHEDULE

Sl. No.	File No.	Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests	Name of Muhal/ Up-Muhal	Khasra number (s)	Area in hectare (s)	Cardinal Boundaries Muhal/Up-Muhal	Forest Range	Forest Division	District
1.	61/2014	Majhar-I	Majhar	1, 3, 6, 157, 277, 278, 279	19-21-93	North: Kog South: Senv East: Barog, West : Neri	Mashobra	Shimla	Shimla
			Neri	344					
				Kitta . . 8					

By order,  
RAM SUBHAG SINGH,  
Additional Chief Secretary (Forests).

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 4 नवम्बर, 2019

**संख्या:एफ0एफ0ई0-बी0-एफ0(14)-170/2019.**—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित के अनुसार इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि या बंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें अभिलिखित कर लिया गया है;

और उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि या बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि या बंजर भूमि को लागू होंगे और जो इसके पश्चात् पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन "संरक्षित वन" कहलाएगी।

### अनुसूची

क्रम संख्या	नस्ति संख्या	वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है	मुहाल/उप-मुहाल का नाम	खसरा नम्बर	हैक्टेयर में क्षेत्रफल	मुख्य सीमाएं मुहाल/उप-मुहाल	वन परिक्षेत्र	वन मण्डल	जिला
1.	62/2014	सरुईला बरुईला	सरुईला बरुईला	25, 26, 160, 163, 189, 193, 196, 201, 202, 203, 258, 259  किता. . 12	14-06-11	उत्तर : सरुईला बरुईला  दक्षिण : मशोबरा  पूर्व : सरुईला बरुईला  पश्चिम : बड़फर, पगोगी	मशोबरा	शिमला	शिमला

आदेश द्वारा,  
राम सुभग सिंह,  
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F(14)-170/2019, dated 4th November, 2019 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

## FORESTS DEPARTMENT

### NOTIFICATION

*Shimla-2, the 4th November, 2019*

**No. FFE-B-F(14)-170/2019.**—WHEREAS, the nature and extent of the rights of the Government and of the Private Persons in or over the forest land or waste land specified in the SCHEDULE appended to this Notification have been enquired into and recorded, as required under sub-section (3) of Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

AND WHEREAS, the forest land or waste land shown in the said SCHEDULE is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the forest produce therein;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 29 of the Act *ibid*, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the said Act shall apply to the said forest land or waste land and shall hereafter be called as "protected forests" under the provisions of sub-section (2) of Section 29 of the Act *ibid*.

**SCHEDULE**

Sl. No.	File No.	Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests	Name of Muhal/ Up-Muhal	Khasra number (s)	Area in hectare (s)	Cardinal Boundaries Muhal/Up-Muhal	Forest Range	Forest Division	District
1.	62/2014	Saruila Baruila	Saruila Baruila	25, 26, 160, 163, 189, 193, 196, 201, 202, 203, 258, 259  <b>Kitta . . 12</b>	14-06-11	North: Saruila Baruila South: Mashobra East: Saruila Baruila West : Badafer, Pagogi	Mashobra	Shimla	Shimla

By order,  
RAM SUBHAG SINGH,  
Additional Chief Secretary (Forests).

**वन विभाग****अधिसूचना**

शिमला-2, 4 नवम्बर, 2019

**संख्या: एफ0एफ0ई0-बी0-एफ0(14)-171/2019.**—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित के अनुसार इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि या बंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें अभिलिखित कर लिया गया है;

और उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि या बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि या बंजर भूमि को लागू होंगे और जो इसके पश्चात् पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन “संरक्षित वन” कहलाएगी।

**अनुसूची**

क्रम संख्या	नस्ति संख्या	वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है	मुहाल/उप-मुहाल का नाम	खसरा नम्बर	हैक्टेयर में क्षेत्रफल	मुख्य सीमाएं मुहाल/उप-मुहाल	वन परिक्षेत्र	वन मण्डल	जिला
1.	63/2014	कण्डा-प्रथम	कण्डा	1, 2, 8, 12, 28, 64, 161, 162, 168  <b>किता . . 9</b>	11-52-30	उत्तर : कण्डा, गुम्मा दक्षिण : कण्डा पूर्व : कण्डा पश्चिम : शौवहल	मशोबरा	शिमला	शिमला

आदेश द्वारा,  
राम सुभग सिंह,  
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F(14)-171/2019, dated 4th November, 2019 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

## FORESTS DEPARTMENT

### NOTIFICATION

Shimla-2, the 4th November, 2019

**No. FFE-B-F(14)-171/2019.**—WHEREAS, the nature and extent of the rights of the Government and of the Private Persons in or over the forest land or waste land specified in the SCHEDULE appended to this Notification have been enquired into and recorded, as required under sub-section (3) of Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

AND WHEREAS, the forest land or waste land shown in the said SCHEDULE is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the forest produce therein;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 29 of the Act *ibid*, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the said Act shall apply to the said forest land or waste land and shall hereafter be called as “protected forests” under the provisions of sub-section (2) of Section 29 of the Act *ibid*.

### SCHEDULE

Sl. No.	File No.	Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests	Name of Muhal/ Up-Muhal	Khasra number (s)	Area in hectare (s)	Cardinal Boundaries Muhal/Up-Muhal	Forest Range	Forest Division	District
1.	63/2014	Kanda-I	Kanda	1, 2, 8, 12, 28, 64, 161, 162, 168 <b>Kitta. . 9</b>	11-52-30	North : Kanda, Gumma South : Kanda East : Kanda West : Shauvahal	Mashobra	Shimla	Shimla

By order,  
RAM SUBHAG SINGH,  
*Additional Chief Secretary (Forests).*

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 4 नवम्बर, 2019

**संख्या: एफ0एफ0ई0-बी0-एफ0(14)-172/2019.**—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित के अनुसार इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि या बंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें अभिलिखित कर लिया गया है;

और उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि या बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि या बंजर भूमि को लागू होंगे और जो इसके पश्चात् पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन “संरक्षित वन” कहलाएगी।

### अनुसूची

क्रम संख्या	नस्ति संख्या	वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है	मुहाल/ उप-मुहाल का नाम	खसरा नम्बर	हैक्टेयर में क्षेत्रफल	मुख्य सीमाएं मुहाल/ उप-मुहाल	वन परिक्षेत्र	वन मण्डल	जिला
1.	64/2014	कमालटी	कमालटी	226, 268, 370, 372, 373 किता. . 5	13-51-48	उत्तर : कमालटी, प्राहणी दक्षिण : घाटी पूर्व : सोहल पश्चिम : कमालटी	मशोबरा	शिमला	शिमला

आदेश द्वारा,  
राम सुभग सिंह,  
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F(14)-172/2019, dated the 4th November, 2019 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

## FORESTS DEPARTMENT

### NOTIFICATION

Shimla-2, the 4th November, 2019

**No. FFE-B-F(14)-172/2019.**—WHEREAS, the nature and extent of the rights of the Government and of the Private Persons in or over the forest land or waste land specified in the SCHEDULE appended to this Notification have been enquired into and recorded, as required under sub-section (3) of Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

AND WHEREAS, the forest land or waste land shown in the said SCHEDULE is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the forest produce therein;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 29 of the Act *ibid*, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the said Act shall apply to the said forest land or waste land and shall hereafter be called as “protected forests” under the provisions of sub-section (2) of Section 29 of the Act *ibid*.

**SCHEDULE**

Sl. No.	File No.	Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests	Name of Muhal / Up-Muhal	Khasra number (s)	Area in hectare (s)	Cardinal Boundaries Muhal/Up-Muhal	Forest Range	Forest Division	District
1.	64/2014	Kamalti	Kamalti	226, 268, 370, 372, 373 <b>Kitta. . 5</b>	13-51-48	North : Kamalti, Prahni South : Ghati East : Sohal West : Kamalti	Mashobra	Shimla	Shimla

By order,  
RAM SUBHAG SINGH,  
Additional Chief Secretary (Forests).

**वन विभाग****अधिसूचना**

शिमला-2, 4 नवम्बर, 2019

**संख्या: एफ0एफ0ई0-बी0-एफ0(14)-173/2019.**—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित के अनुसार इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि या बंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें अभिलिखित कर लिया गया है;

और उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि या बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि या बंजर भूमि को लागू होंगे और जो इसके पश्चात् पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन "संरक्षित वन" कहलाएगी।

**अनुसूची**

क्रम संख्या	नस्ति संख्या	वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है	मुहाल / उप-मुहाल का नाम	खसरा नम्बर	हैक्टेयर में क्षेत्रफल	मुख्य सीमाएं मुहाल / उप-मुहाल	वन परिक्षेत्र	वन मण्डल	जिला
1.	65/2014	टिला-प्रथम	टिला	1, 2, 3, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 109, 110 <b>किता. . 15</b>	37-84-22	उत्तर : बड़फर, टिला दक्षिण : लम्बी धार, टिला पूर्व : बड़फर, डी.पी.एफ. मशोबरा पश्चिम : बड़फर, बनरेडू	मशोबरा	शिमला	शिमला

आदेश द्वारा,  
राम सुभग सिंह,  
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F (14)-173/2019, dated 4th November, 2019 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

## FORESTS DEPARTMENT

### NOTIFICATION

Shimla-2, the 4th November, 2019

**No. FFE-B-F(14)-173/2019.**—WHEREAS, the nature and extent of the rights of the Government and of the Private Persons in or over the forest land or waste land specified in the SCHEDULE appended to this Notification have been enquired into and recorded, as required under sub-section (3) of Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

AND WHEREAS, the forest land or waste land shown in the said SCHEDULE is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the forest produce therein;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 29 of the Act *ibid*, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the said Act shall apply to the said forest land or waste land and shall hereafter be called as “protected forests” under the provisions of sub-section (2) of Section 29 of the Act *ibid*.

### SCHEDULE

Sl. No.	File No.	Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests	Name of Muhal / Up-Muhal	Khasra number (s)	Area in hectare (s)	Cardinal Boundaries Muhal/Up-Muhal	Forest Range	Forest Division	District
1.	65/2014	Tila-I	Tila	1, 2, 3, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 109, 110 <b>Kitta . . 15</b>	37-84-42	North : Badafer, Tila South : Lambi Dhar, Tila East : Badafer, DPF Mashobra West : Badafer, Banredu	Mashobra	Shimla	Shimla

By order,  
RAM SUBHAG SINGH,  
Additional Chief Secretary (Forests).

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 4 नवम्बर, 2019

**संख्या: एफ0एफ0ई0-बी0-एफ0(14)-174/2019.**—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अनुसार इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि या बंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें अभिलिखित कर लिया गया है;

और उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि या बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि या बंजर भूमि को लागू होंगे और जो इसके पश्चात् पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन "संरक्षित वन" कहलाएगी।

### अनुसूची

क्रम संख्या	नस्ति संख्या	वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है	मुहाल/उप-मुहाल का नाम	खसरा नम्बर	हेक्टेयर में क्षेत्रफल	मुख्य सीमाएं मुहाल/उप-मुहाल	वन परिक्षेत्र	वन मण्डल	जिला
1.	66/2014	क्यार-प्रथम	क्यार	598, 630, 639, 660, 811, 813, 846, 851 किता. . 8	13-33-49	उत्तर : धगोग दक्षिण : काटली पूर्व : छनावट पश्चिम : क्यार	मशोबरा	शिमला	शिमला

आदेश द्वारा,  
राम सुभग सिंह,  
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F(14)-174/2019, dated 4th November, 2019 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

## FORESTS DEPARTMENT

### NOTIFICATION

Shimla-2, the 4th November, 2019

**No. FFE-B-F(14)-174/2019.**—WHEREAS, the nature and extent of the rights of the Government and of the Private Persons in or over the forest land or waste land specified in the SCHEDULE appended to this Notification have been enquired into and recorded, as required under sub-section (3) of Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

AND WHEREAS, the forest land or waste land shown in the said SCHEDULE is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the forest produce therein;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 29 of the Act *ibid*, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the said Act shall apply to the said forest land or waste land and shall hereafter be called as "protected forests" under the provisions of sub-section (2) of Section 29 of the Act *ibid*.

**SCHEDULE**

Sl. No.	File No.	Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests	Name of Muhal/ Up-Muhal	Khasra number (s)	Area in hectare (s)	Cardinal Boundaries Muhal/Up-Muhal	Forest Range	Forest Division	District
1.	66/2014	Kayar-I	Kayar	598, 630, 639, 660, 811, 813, 846, 851 <b>Kitta. . 8</b>	13-33-49	North : Dhagog South : Katali East : Chhanawat West : Kayar	Mashobra	Shimla	Shimla

By order,  
RAM SUBHAG SINGH,  
Additional Chief Secretary (Forests).

**वन विभाग****अधिसूचना**

शिमला-2, 4 नवम्बर, 2019

**संख्या: एफ0एफ0ई0-बी0-एफ0(14)-175/2019.**—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अनुसार इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि या बंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें अभिलिखित कर लिया गया है;

और उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि या बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि या बंजर भूमि को लागू होंगे और जो इसके पश्चात् पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन “संरक्षित वन” कहलाएगी।

**अनुसूची**

क्रम संख्या	नस्ति संख्या	वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है	मुहाल/ उप-मुहाल का नाम	खसरा नम्बर	हेक्टेयर में क्षेत्रफल	मुख्य सीमाएं मुहाल/ उप-मुहाल	वन परिक्षेत्र	वन मण्डल	जिला
1.	67/2014	बहोग-द्वितीय	बहोग	139, 154, 182, 202, 292, 333/1 <b>किता . . 6</b>	11-60-25	उत्तर : बहोग, बगथल दक्षिण : सीपूर पूर्व : देवठी पश्चिम : बहोग	मशोबरा	शिमला	शिमला

आदेश द्वारा,  
राम सुभग सिंह,  
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F(14)-175/2019, dated 4th November, 2019 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

## FORESTS DEPARTMENT

### NOTIFICATION

*Shimla-2, the 4th November, 2019*

**No. FFE-B-F(14)-175/2019.**—WHEREAS, the nature and extent of the rights of the Government and of the Private Persons in or over the forest land or waste land specified in the SCHEDULE appended to this Notification have been enquired into and recorded, as required under sub-section (3) of Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

AND WHEREAS, the forest land or waste land shown in the said SCHEDULE is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the forest produce therein;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 29 of the Act *ibid*, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the said Act shall apply to the said forest land or waste land and shall hereafter be called as “protected forests” under the provisions of sub-section (2) of Section 29 of the Act *ibid*.

### SCHEDULE

Sl. No.	File No.	Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests	Name of Muhal / Up-Muhal	Khasra number (s)	Area in hectare (s)	Cardinal Boundaries Muhal/Up-Muhal	Forest Range	Forest Division	District
1.	67/2014	Bahog-II	Bahog	139, 154, 182, 202, 292, 333/1  <b>Kitta. . 3</b>	11-60-25	North : Bahog, Bagthal  South : Sipur East : Devathi West : Bahog	Mashobra	Shimla	Shimla

By order,  
RAM SUBHAG SINGH,  
*Additional Chief Secretary (Forests).*

OFFICE OF THE DISTT. MAGISTRATE,  
UNA, DISTRICT UNA, H. P.

### NOTIFICATION

*Una, the 13th December, 2019*

**No. FDS-Una-6030-70.**—In pursuance of H.P. Government Notification No. FDS-A(3)-7/2016, dated 09th December, 2019 and in exercise of the powers vested in me under sub clause (d) of clause 3(1) of the Himachal Pradesh Hoarding and Profiteering Prevention Order, 1977, I Aridham Chaudhary, District Magistrate Una, District Una do hereby fix the maximum margin of

Profit on Onion listed in 23 of schedule-1 appended to the said order, which dealers in Una can charge on wholesale and retail sale transactions as under:—

Sl. No.	Name of Commodity	Maximum wholesaler Margin	Maximum retail sale margin
1.	Onion	5%	24% (including freight charges, Loading, unloading, wastage and other incidental charges)

#### Terms and Condition:

1. No wholesaler/commission agent/retailer shall charge margin of profit more than that fixed above.
2. The Dealer engaged in wholesaler as well as in retail sale business shall charge only one margin of profit on the transaction *i.e.* wholesaler margin on wholesale transaction and retail sale margin on retail sale transaction. The wholesale margin shall be allowed at one stage only at one particular station.
3. Wholesale transaction would mean a single transaction of not less than the following:
  - (i) Onion = 20KG
4. Every wholesale dealer/commission agent shall issue cash memo/bill of the quantity of onion sold to any retailer and retailer shall keep the cash memo/bill in his or her shop for inspection purpose.

This notification shall come into force from the date of its publication in official Gazette.

Sd/-  
(ARIDHAM CHAUDHARY), IAS  
District Magistrate Una,  
District Una, H.P.

### TRANSPORT DEPARTMENT

#### NOTIFICATION

*Shimla-2, the 19th December, 2019*

**No. TPT-A (4)-8/2015.**—The Governor, Himachal Pradesh in partial modification of this department notification of even number dated 06-02-2019 and in exercise of the powers conferred by section 215(2) of Motor Vehicles Act, 1988, is pleased to nominate the following as an official member of **The State Transport Development and Road Safety Council** with immediate effect, in public interest:—

1. Regional Officer, H.P. National Highway Authority of India (NHAI).

By order,  
JAGDISH CHANDER SHARMA,  
Principal Secretary (Transport).

**In the Court of Sh. Shivam Pratap Singh (IAS), Sub-Divisional Magistrate, Chamba,  
District Chamba (H. P.)**

Hanif s/o Shri Sher Mohd., r/o Mohalla Baloo, Chamba Town, Tehsil & Distt. Chamba, H.P. aged 40 years (Bridegroom/Husband).

and

Rano d/o Sh. Shukar Deen, r/o Village Chabdu, P.O. Ohra, Tehsil & Distt. Chamba, H.P. aged 35 years aged 25 years (Bride/Wife) . . Applicants.

*Versus*

1. The General Public
2. The Registrar of Marriages Himachal Pradesh, Shimla

*Subject.— Registration of Marriage under section 8(4) of the H.P. Registration of Marriages Act, 1996 (Act No. 21 of 1997).*

**PUBLIC NOTICE**

Whereas, the above named applicants have made an application before me under section 8(4) of H.P. Registration of Marriages Act, 1996 alongwith relevant records and affidavits stating therein that they have solemnized their marriage on 03-07-2005 at their place of residence with Muslim rites and customs but due to some un-avoidable circumstances it could not be entered in the record of Municipal Council Chamba, Distt. Chamba, H.P. well in time.

And whereas, they have also stated that they were not aware of the laws for the registration of marriage with the Registrar of Marriages and now, therefore, necessary order for the registration of their marriage be passed, so that their marriage could be registered by the concerned authority.

Now, therefore, objections are invited from the general public that if, anyone has any objection regarding the registration of marriage of above named applicants, they should appear before the undersigned in my court on or before 05-01-2020 at 2.00 P.M. either personally or through their authorised agent/pleader.

In the event of their failure to do so, orders shall be passed *ex-parte* for the registration of marriage without affording any further opportunity of being heard.

Issued under my hand and seal of the court on this 27th November, 2019.

Seal.

SHIVAM PRATAP SINGH (IAS),  
Sub-Divisional Magistrate,  
Chamba, District Chamba (H.P.).

**In the Court of Sh. Shivam Pratap Singh (IAS), Sub-Divisional Magistrate, Chamba,  
District Chamba (H. P.)**

Kamlesh Kumar s/o Shri Subhash Chand, r/o Village Ujadal, P.O. Rakh, Tehsil & Distt. Chamba, H.P. aged 22 years (Husband)

and

Anjali Devi d/o Sh. Karmo, r/o Village Bagodi, P.O. Samra, Tehsil & Distt. Chamba, H.P. aged 21 years (Bride/Wife) . . Applicants.

*Versus*

1. The General Public
2. The Registrar of Marriages Himachal Pradesh, Shimla

*Subject.— Registration of Marriage under section 15 of Special Marriages Act, 1954.*

**PUBLIC NOTICE**

Whereas, the above named applicants have made an application before the undersigned under section 15 of Special Marriages Act, 1954 (Central Act) as ammended by the Marriage Laws (Amendment Act 01, 49 of 2001) alongwith affidavits and other relevant documents stating therein that they have solemnized their marriage on 08-11-2018 at their place of residences and they are living together as husband and wife since then. Hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Now, therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding the registration of this marriage can file the objections personally or in writing before this court on or before 05-01-2020 after that no objections will be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued under my hand and seal of the court on 28-11-2019.

Seal.

**Sh. Shivam Pratap Singh (IAS),**  
*Sub-Divisional Magistrate,*  
*Chamba, District Chamba (H.P.).*

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार आलमपुर,  
उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मुकद्दमा नं0 : इन्तकाल नं0 : 179 मुखफूद-उल-खबरी को तस्दीक करने बारे।

श्रीमती रजना कुमारी पत्नी श्री राजिन्दर पुत्र श्री दुनी चन्द, निवासी महाल भनैना, उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) वादी।

बनाम

विषय.—इन्तकाल नं० 179 मुखफूद—उल—खबरी श्री राजिन्दर सिंह पुत्र श्री दुनी चन्द पुत्र चुहड़ू, निवासी महाल भनैना, उप—तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि० प्र०) को तस्दीक करने बारे।

उपरोक्त मुकद्दमा इन्तकाल नं० 179 मुखफूद—उल—खबरी श्री राजिन्दर सिंह पुत्र श्री दुनी चन्द पुत्र चुहड़ू, निवासी महाल भनैना, उप—तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि० प्र०) का इस न्यायालय में विचाराधीन है जिसमें वादी श्रीमती रजना देवी पत्नी राजिन्दर पुत्र श्री दुनी चन्द ने प्रार्थना—पत्र देकर आवेदन किया है कि उसका पति श्री राजिन्दर सिंह पुत्र श्री दुनी चन्द पुत्र श्री चुहड़ू, निवासी महाल भनैना लगभग 18 साल पहले अमृतसर (पंजाब) से लापता हो गया था और आज दिन तक उसका कोई अता—पता नहीं चल सका है। इस बारे में प्रथम दृष्टया रिपोर्ट स्थानीय पुलिस स्टेशन अमृतसर (पंजाब) में नं० 30 दिनांक 01—02—2001 को दर्ज करवाई गई थी। वादी ने प्रार्थना की है कि उसके पति को मृत घोषित किया जाकर महाल हजा की समस्त भूमि का इन्तकाल मुकफूद—उल—खबरी उसके नाम दर्ज व तस्दीक किया जावे।

अतः इश्तहार के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि उन्हें श्री राजिन्दर सिंह पुत्र श्री दुनी चन्द पुत्र चुहड़ू, निवासी महाल भनैना, उप—तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा की गुमशुदगी बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह इस इश्तहार के प्रकाशन की दिनांक से 30 दिन के अन्दर इस अदालत में हाजिर आकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 02—12—2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, एवं नायब तहसीलदार,  
आलमपुर, जिला कांगड़ा, हि० प्र०।

### ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी रक्कड़, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा (हि० प्र०)

केस नं०	किस्म मुकद्दमा	तारीख दायर	तारीख पेशी
15/T/2018	नाम दुरुस्ती	28—12—2018	27—12—2019

वलवन्त सिंह

बनाम

आम जनता

प्रार्थना—पत्र नाम दुरुस्ती प्रार्थी श्री वलवन्त सिंह पुत्र झावा राम, मौजा कलोहा, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा (हि० प्र०) ने इस अदालत में प्रार्थना—पत्र दायर किया है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख महाल सरड मांगली में गुलवन्त सिंह पुत्र झावा राम दर्ज है जबकि उसका सही नाम वलवन्त सिंह पुत्र झावा राम है, लिहाजा इसे दुरुस्त करके वलवन्त सिंह पुत्र झावा राम किया जाए। प्रार्थना—पत्र के समर्थन में कार्यालय ग्राम पंचायत पीरसलूही का प्रमाण—पत्र, शपथ—पत्र प्रार्थी, पर्चा जमाबन्दी वर्ष 2015—16 स्थित महाल सरड मांगली, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, परिवार रजिस्टर नकल की प्रतिलिपि, ब्यानात प्रार्थी साथ संलग्न हैं।

अतः इस नोटिस के माध्यम से आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज हो तो दिनांक पेशी 27—12—2019 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त नाम दुरुस्त करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 25-11-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
रक्कड़, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत विकास जम्बाल, हि0 प्र0 से0, विवाह पंजीकरण अधिकारी धीरा, उप-मण्डल धीरा,  
जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

1. पंकज कुमार आयु 24 वर्ष पुत्र रणजीत सिंह, निवासी गांव व डाकघर वच्छवाई, तहसील थुरल,  
जिला कांगड़ा।
2. वन्दना देवी आयु 21 वर्ष पुत्री सुभाष चन्द, निवासी गांव कुरेरा, डाकघर टिहरी, तहसील खुण्डियां,  
जिला कांगड़ा।  
प्रार्थीगण।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

आम जनता को सूचित किया जाता है कि प्रार्थीगण एक व दो ने इस न्यायालय में विवाह पंजीकरण करवाने का आवेदन किया है। अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता व उपरोक्त आवेदनकर्ता के माता-पिता को इस विवाह पंजीकरण बारे एतराज हो तो वह दिनांक 30-12-2019 या इससे पूर्व प्रातः 10.00 बजे इस न्यायालय में आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। इस तिथि के बाद कोई उजर स्वीकार नहीं किया जायेगा।

आज दिनांक 25-11-2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
विवाह पंजीकरण अधिकारी,  
उप-मण्डल धीरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रागपुर, उप-तहसील प्रागपुर, जिला कांगड़ा, (हि0प्र0)

ब मुकद्दमा : 12/NT/2019

सावित्री देवी

बनाम

समस्त जनता

दरखास्त जेर धारा 13(3)विवाह/जन्म तिथि एवं मृत्यु अधिनियम, 1966.

श्रीमती सावित्री देवी पुत्री श्री बलदेव सिंह ने इस अदालत में दरखास्त की है कि उसका जन्म ग्राम पंचायत मनियाला के रजिस्टर में गलती से दर्ज नहीं करवाया गया है। अब दर्ज किया जाए। श्रीमती सावित्री देवी की जन्म तिथि 13-07-1952 तथा उसका जन्म गांव मनियाला उपरला, उप-तहसील प्रागपुर में हुआ है।

अतः इस नोटिस द्वारा समस्त जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इसका नाम दर्ज करने बारे में आपत्ति या उजर हो तो वह दिनांक 09-01-2020 समय 10.00 बजे प्रातः स्वयं अथवा किसी वांछित के माध्यम से हमारे समक्ष अदालत में हाजिर होकर पेश करें अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 25-11-2019 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
उप-तहसील प्रागपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार प्रागपुर, उप-तहसील प्रागपुर,  
जिला कांगड़ा, (हि0प्र0)

ब मुकद्दमा : 40 / NT / 2019

मीनाक्षी पुत्री लेख राज, वासी गरली, उप-तहसील प्रागपुर, जिला कांगड़ा, (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

विषय.—नाम दुरुस्ती :

श्रीमती मीनाक्षी पुत्री लेख राज, वासी गरली, उप-तहसील प्रागपुर, जिला कांगड़ा, (हि0प्र0) ने अदालत हजा में प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि उसका नाम राजस्व रिकार्ड में मीनाक्षी पुत्री लेख राज, वासी गरली, उप-तहसील प्रागपुर, जिला कांगड़ा, (हि0प्र0) के राजस्व रिकार्ड में गलत इन्द्राज दर्ज है तथा उसका सही नाम श्रीमती मीनाक्षी उपनाम सुनीता पुत्री लेख राज, वासी गरली, उप-तहसील प्रागपुर, जिला कांगड़ा, (हि0प्र0) है। अतः नाम दुरुस्ती करने की प्रार्थना की है।

अतः इस नोटिस द्वारा आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि मीनाक्षी पुत्री लेख राज, वासी गरली, उप-तहसील प्रागपुर, जिला कांगड़ा, (हि0प्र0) की बजाये मीनाक्षी उपनाम सुनीता पुत्री लेख राज, वासी गरली, उप-तहसील प्रागपुर, जिला कांगड़ा, (हि0प्र0) के राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त करने बारे किसी को कोई एतराज अथवा आपत्ति हो तो वह दिनांक 09-01-2020 समय 10.00 बजे अदालत हजा में असालतन/वकालतन हाजिर होवें अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी और नाम की दुरुस्ती के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 25-11-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,  
उप-तहसील प्रागपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

**ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, कल्पा, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)**

मुकदमा नं0 :  
19/2019

तारीख रजुआ :  
03-12-2019

Smt. Sunila Devi w/o Sh. Jitender Singh, r/o Village Kalpa, P.O. Kalpa, Tehsil Kalpa, District Kinnaur, H.P.

**बनाम**

1. आम जनता ग्राम कल्पा,
2. प्रधान, ग्राम पंचायत कल्पा, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)

विषय.—प्रार्थी का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत कल्पा के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाये जाने बारे अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म पंजीकरण करने बारे।

हर खास व आम जनता को बजरिया इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि Smt. Sunila Devi w/o Sh. Jitender Singh, r/o Village Kalpa, P.O. Kalpa, Tehsil Kalpa, District Kinnaur, H.P. ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसकी पुत्री Miss Anjali Negi का जन्म दिनांक 05-01-1999 को गांव कल्पा में हुआ है तथा अज्ञानतावश प्रार्थी ने उसका पंजीकरण ग्राम पंचायत कल्पा के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया है। अब प्रार्थी उपरोक्त नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत कल्पा के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहती है। इस बारे आदेश जारी करने का अनुरोध किया है।

अतः आम जनता, ग्राम पंचायत कल्पा, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर को बजरिया इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि Smt. Sunila Devi w/o Sh. Jitender Singh की पुत्री Miss Anjali Negi का जन्म दिनांक 05-01-1999 है का पंजीकरण ग्राम पंचायत कल्पा के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 02-01-2020 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा आवेदन-पत्र पर जन्म पंजीकरण के आदेश पारित कर सचिव ग्राम पंचायत कल्पा को आगामी कार्यवाही हेतु भेज दिया जायेगा।

आज दिनांक 03-12-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
कल्पा, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)।

-----

**ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)**

मिसल नम्बर : 28-टी/18-11-2019.

श्री देवी राम पुत्र श्री इन्छे राम, निवासी गांव चलौट, डाकघर सोमनाचनी, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

बनाम

विषय.—राजस्व रिकार्ड में नाम दुरुस्ती बारे आवेदन—पत्र ।

श्री देवी राम पुत्र श्री इच्छे राम, निवासी गांव चलौट, डाकघर सोमनाचनी, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि० प्र०) ने एक आवेदन—पत्र मय शपथ—पत्र इस आशय के साथ गुजारा है कि उसका नाम ग्राम पंचायत सोमगाड के रिकार्ड में देवी राम दर्ज है, जो उसका सही नाम है परन्तु महाल चलौट पटवार वृत्त सोमगाड के रिकार्ड में गलती से लक्ष्मी राम दर्ज हुआ है। अब राजस्व रिकार्ड में देवी राम दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इशतहार द्वारा सर्वसाधारण जनता व हितबद्ध व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त नाम को दुरुस्त करने बारे किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 30-12-2019 को या इससे पूर्व अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन या वकालतन उपस्थित होकर अपनी आपत्ति दर्ज कर सकता है। इसके पश्चात् कोई भी एतराज काबिले समायत नहीं होगा तथा आवेदन—पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 30-11-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,  
तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि० प्र०)।

ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील सन्धोल, जिला मण्डी  
(हि० प्र०)

मिसल नाम दुरुस्ती नं० : 13

तारीख दायर : 22-11-2019

तारीख पेशी : 09-01-2020

श्री मिलाप चन्द शर्मा पुत्र श्री सालीग राम शर्मा, निवासी गांव लसराणा, डाकघर व तहसील सन्धोल, जिला मण्डी (हि० प्र०) प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थी।

जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन—पत्र।

श्री मिलाप चन्द शर्मा पुत्र श्री सालीग राम शर्मा, निवासी गांव लसराणा, डाकघर व तहसील सन्धोल, जिला मण्डी (हि० प्र०) के आवेदन—पत्र पर कार्रवाई करने के उपरान्त अति० जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) एवं चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी, मण्डी, जिला मण्डी से उनके कार्यालय के पत्र संख्या: HFW-MND-(Delyed Birth & Death)/2019-1543, दिनांक 25-10-2019 द्वारा श्री सालीग राम शर्मा का विलम्बित मृत्यु पंजीकरण मामला समस्त औपचारिकताओं सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसमें उनके द्वारा श्री सालीग राम शर्मा पुत्र श्री मोजी राम, निवासी गांव लसराणा, डाकघर व तहसील सन्धोल, जिला मण्डी (हि० प्र०) की मृत्यु दिनांक 13-06-1979 को होने की पुष्टि करते हुये जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 व हि० प्र० जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1978 के तहत अनुमति प्रदान करते हुये निर्देश दिए हैं

कि मामला में उक्त अधिनियम में निहित शर्तों के अनुसार समस्त औपचारिकताओं को पूरा करने के पश्चात् ही सम्बन्धित इकाई (ग्राम पंचायत दतवाड़) को परिवार रजिस्टर व जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में मृत्यु तिथि की प्रविष्टि करने हेतु भेजा जाए।

अतः इससे पूर्व कि मामला में आगामी आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाए इस नोटिस द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त मामला में कोई एतराज हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 09-01-2020 को 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है अन्यथा गैरहाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 05-12-2019 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,  
तहसील सन्धोल, जिला मण्डी (हि० प्र०)।

**In the Court of Shri L. R. Verma, H.A.S., Marriage Officer-cum- Sub-Divisional Magistrate,  
Paonta Sahib, District Sirmaur, Himachal Pradesh**

#### NOTICE UNDER SECTION 15 OF SPECIAL MARRIAGE ACT, 1954

In the matter of :

1. Sh. Karan Singh Tomar s/o Sh. Partap Singh, r/o H. No. 282/16, Canal Road Friends Colony Subhkhera, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur, H.P.

2. Smt. Reena Tomar d/o Sh. Kahan Singh, r/o V.P.O. Sataun, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur, H.P.

*Versus*

General Public

*An Application for registration of Marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.*

Sh. Karan Singh Tomar s/o Sh. Partap Singh, r/o H. No. 282/16, Canal Road Friends Colony Subhkhera, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur, H.P. and Smt. Reena Tomar d/o Sh. Kahan Singh, r/o V.P.O. Sataun, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur, H.P. have filed an application alongwith affidavits in this court under section 15 of Special Marriage Act, 1954 on dated 13-11-2019 stating therein that they have solemnized their marriage on 22-09-2018 and they have been living together as husband and wife ever since then. Hence notices are given to all concerned and general public to this effect that if anybody have any objection regarding the registration of marriage duly solemnized on 22-09-2018 between Sh. Karan Singh Tomar s/o Sh. Partap Singh, r/o H. No. 282/16, Canal Road Friends Colony Subhkhera, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur, H.P. and Smt. Reena Tomar d/o Sh. Kahan Singh, r/o V.P.O. Sataun, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur, H.P. he/she should file written objections and appear personally or through an authorized agent before this court within 30 days from the date of issue of this notice. After expiry of the said period, the marriage certificate would be issued to the applicants by this Court.

Issued under my hand and office seal of this court on 05-12-2019.

Seal.

L.R. VERMA (HAS),  
Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,  
Paonta Sahib, District Sirmour, H.P.

समक्ष श्री राजेश कुमार, सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर,  
हिमाचल प्रदेश

ब मुकद्दमा :

श्रीमती रंजना देवी पत्नी श्री रण विजय सिंह, निवासी महिपुर, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0प्र0।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना—पत्र दुरुस्ती नाम।

श्रीमती रंजना देवी पत्नी श्री रण विजय सिंह, निवासी महिपुर, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने इस अदालत में एक आवेदन—पत्र प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख मौजा महिपुर में नारदा देवी दर्ज है जो कि गलत है। जबकि प्रार्थिन का नाम रंजना देवी है जिसकी पुष्टि हेतु प्रार्थी ने अपने आवेदन के साथ आधार कार्ड, परिवार नकल, अपना हल्फीया व जमाबन्दी वर्ष 2013—14 संलग्न किया है जिसकी दुरुस्ती हेतु राजस्व अभिलेख मौजा महिपुर में अपना नाम रंजना देवी दर्ज करवाना चाहती है।

अतः इस नोटिस द्वारा समस्त जनता ग्राम महिपुर हर आम खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी का उक्त नाम की दुरुस्ती राजस्व अभिलेख में करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 04—01—2020 व इससे पूर्व असालतन व वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। उसके उपरांत कोई उजर व एतराज नहीं सुना जाएगा और नियमानुसार प्रार्थना—पत्र का निपटारा कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 03—12—2019 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

राजेश कुमार,  
सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग,  
ददाहू, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।